



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 31—नवम्बर 6, 2009 (कार्तिक 9, 1931)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 31—NOVEMBER 6, 2009 (KARTIKA 9, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 9 सितम्बर 2009

सं. ए. 35018/2/2009-प्रशा.-II--इस कार्यालय की दिनांक 19.05.2009 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री राजेश जोशी, आशुलिपिक, ग्रेड सी संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष के स्टाफ अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के पद पर संशोधित वेतन ढाँचा पी.बी.-2, 9,300--34,800/- रु., ग्रेड पे 4,800/-रु. (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि को आगे 3 महीने की अवधि अर्थात् दिनांक 15.08.2009 से 14.11.2009 तक (14.08.2009 को तकनीकी ब्रेक देते हुए) या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110069, दिनांक 9 सितम्बर 2009

सं. ए.-19014/08/2009-प्रशा. I-- कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 27.08.2009 के का.ज्ञा.सं. 4/1/2009-सी एस.-I(घ) के तहत

वर्ष 2007 के लिए के.सचि.से. की चयन सूची (उपसचिव) में शामिल किए जाने तथा सं. लो.से.आ. संवर्ग आवंटित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, सुश्री रत्ना ललिता, वाणिज्य विभाग, विदेशी व्यापार महानिदेशालय के के.सचि.से. संवर्ग (अवर सचिव) की ग्रेड I अधिकारी को सं.लो.से.आ. के कार्यालय में 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में के.सचि.से. के चयन ग्रेड (उपसचिव) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. चयन सूची में शामिल किए जाने पर सुश्री रत्ना ललिता की अनुमोदित सेवा की गणना के.सचि.से. नियमावली, 1962 के नियम 2 (ग) (iii) के अनुसार 1 जुलाई, 2007 से की जाएगी। तदनुसार, एफ आर 22 (I) (क) (i) में दिए गए उपबंधों के अनुसार सैद्धांतिक आधार पर 01.07.2007 से वेतन निर्धारण के हकदार होंगे। तथापि, वास्तविक लाभ अधिकारी की नियुक्ति तथा उप सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 27.08.2009 के का.ज्ञा.सं. 4/1/2009-सी एस.-I(घ) की शर्तों के अनुसार उपलब्ध होंगे।

3. सुश्री रत्ना ललिता ने दिनांक 02.09.2009 (पूर्वा.) से उप सचिव, सं.लो.से.आ. के पद का पदभार संभाल लिया।

ए. के. अहलुवालिया
प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 18 सितम्बर 2009

सं. ए.-19016/07/2009-प्रशा. I-- कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 2009, 9 सितम्बर, 2009 तथा 11 सितम्बर, 2009 के आ.सं. 5/8/2009-सी एस.-II के तहत वर्ष, 2008 की चयन सूची के लिए के.सचि.आ.से. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड (वरि.प्र.नि. सचिव) के पद पर नियमित पदोन्नति पर सं.लो.से.आ. के के.सचि.आ.से. संवर्ग में उनका नामांकन होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के के.सचि.आ.से. संवर्ग के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री एम. शशिधरन को दिनांक 07 सितम्बर, 2009 के पूर्वा. से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600—39,100/- रु.) में के.सचि.आ.से. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड (वरि.प्र.नि. सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. अहलूवालिया
प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 1 अक्टूबर 2009

सं. ए.-19011/03/2009-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री रakesh कुमार गुप्ता, भा.प्र.से. (जे.के. : 86) को दिनांक 25 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 15.02.2011 तक के लिए 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-4 (37,400—67,000/- रु.) में अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. अहलूवालिया
प्रशासनिक अधिकारी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अक्टूबर 2009

सं.डीपी/पर्स-1/2009/0079/3/51/2002--श्री रजनी कांत मिश्रा, भा.पु. सेवा (उत्तर प्रदेश : 1984), संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की केंद्र में 7 वर्षों की सामान्य अवधि पूरी होने पर उनकी सेवाएं 7.10.2009 के अपराह्न से उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाती हैं।

एस. जे. एम. गिलानी
उप निदेशक (प्रशा.)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-110023, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

सं. आईएम.पीआरएस-563/59489--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.08.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/11/2008-ईओ(एमएम-I) के अनुसरण में श्री के. सुब्रमनियम, उप सचिव, आई.ए. तथा आई.एस. (95) को आयोग में निदेशक के रूप में उन्हें व्यक्तिगत रूप से देय, दिनांक 29.08.2009 (पूर्वाह्न) से अपने कार्यकाल की शेष अवधि 14.01.2014 तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

एम. ए. खान
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

सं. ओ.दो. 3615/2009-कार्मिक--भारत सरकार ने श्री आशुतोष शुक्ला, भा.पु.से. (टीएन : 86) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 37,400—67,000/- तथा ग्रेड पे 10,000/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, का कार्यभार दिनांक 26.08.2009 (पूर्वाह्न) को सम्भाल लिया है।

टी. चन्द्रशेखरन
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 3619/2009-कार्मिक--भारत सरकार ने श्री एन. आर. के. रेड्डी, भा.पु.से. (राजस्थान : 86) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 37,400—67,000/- तथा ग्रेड पे 10,000/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए पुलिस महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, का कार्यभार दिनांक 22.09.2009 (पूर्वाह्न) को सम्भाल लिया है।

टी. चन्द्रशेखरन
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

सं. ई-38015(4)/जी.पी.सी./2009/कार्मिक-1/301--राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली के उप कमांडेंट श्री जी. पी. चौधरी का त्याग-पत्र दिनांक 09.10.2009 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिरीक्षक
के. ओ. सु. बल

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

सं. 287-जी.ई.-1/13-2006(I)--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :—

सर्वश्री

- | | |
|-------------------|---|
| 1. स्पोर्ट्स वसूम | अधिवार्षिकी दिनांक 30.09.2009 (अपराह्न) |
| 2. के. मंजीत सिंह | अधिवार्षिकी दिनांक 30.09.2009 (अपराह्न) |
| 3. टी. एल. अंजान | अधिवार्षिकी दिनांक 30.09.2009 (अपराह्न) |
| 4. डी. सी. शर्मा | अधिवार्षिकी दिनांक 30.09.2009 (अपराह्न) |
| 5. एल. के. राजपूत | अधिवार्षिकी दिनांक 30.09.2009 (अपराह्न) |

आर. नरेश

सहा. नियंत्रक

महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 6 अक्टूबर 2009

सं. प्रशा. I/का.आ.सं.-159--महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
नई दिल्ली, इस कार्यालय के श्री जितेन्द्र कुमार पाहवा, सहायक लेखापरीक्षा
अधिकारी को लेखापरीक्षा अधिकारी कैडर में रु. 9,300—34,800/-
के वेतन बैंड 2, जिसमें रु. 5,400/- का ग्रेड वेतन मान्य है, में
दिनांक 01.10.2009 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, उ. प्र.

इलाहाबाद, दिनांक 15 अक्टूबर 2009

सं. प्रशा. II/ग्रेड-I/अधि./भाग-III/1218--वित्त मंत्रालय ने जी.एस.
आर.-622(ई) दिनांक 29.08.2008 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी
करते हुए अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के पूर्व
पुनरीक्षित वेतनमान को उच्चरीकृत कर एकसमान वेतन बैंड (पी.बी.-2,
रुपये 9,300--34,800/-) तथा संवर्ग वेतन रु. 4,800/- में रखते हुए
अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों को संविलयित कर
दिया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय के पत्रांक :
697-6-पी.सी./जी.ई.-II/22-2009 दिनांक 27.05.2009 के अनुसार
अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी के संविलयित संवर्ग को दिनांक
27.05.2009 से सहायक लेखाधिकारी का पदनाम दिया गया है तथा इन्हें
समूह "ख" राजपत्रित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार निम्नलिखित
अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 27.05.2009 से सहायक लेखाधिकारी
(समूह "ख" राजपत्रित) का पदनाम दिया गया है :-

क्रमांक	व्यक्तिगत संख्या	नाम
1	2	3
	बी/	सर्वश्री
01	1825	हरीश कुमार मिश्रा
02	1801	राशिद अली खान
03	1823	प्रदीप कुमार गुप्ता
04	1838	अरशद इदरीश
05	1850	प्रमोद कुमार शर्मा
06	1858	त्रियुगी नारायण धर द्विवेदी
07	1872	राजेश कुमार शर्मा
08	1908	अमरजीत प्रसाद
09	1918	किशोर कुमार गुप्ता
10	1919	श्री प्रकाश सिंह
11	1978	राम लखन सिंह
12	0254	राम अधार
13	0497	लालजीत जय
14	1382	प्रेम चन्द्र
15	1440	अर्जुन प्रसाद
16	1985	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

1	2	3
	सर्वश्री	
17	2028	रजनीश कुमार श्रीवास्तव
18	1828	वीर सिंह
19	0619	ग्राबियल कुजूर
20	2032	संजय कुमार जायसवाल
21	2069	विकास जायसवाल
22	2141	केशव राम
23	2188	आर्येन्द्र प्रसाद गुप्ता
24	2202	गौहर मशरूफ सिद्दीकी
25	2219	राम बिहारी मिश्रा
26	2183	अरविन्द शुक्ल
27	2063	गणेश चन्द्र
28	2227	शिव कुमार वर्मा
29	2229	विजय कुमार
30	2294	मनोज कुमार मधुप
31	2316	नन्द लाल सरोज
32	0777	राम प्रताप
33	0460	बाल कुमार
34	0632	पुरुषोत्तम लाल
35	0405	शैलेन्द्र त्रिपाठी
36	0451	राघवेंद्र प्रसाद दुबे
37	0535	राजेन्द्र कुमार
38	0536	शिव कुमार वैश्य
39	0625	चंदन कुमार चटर्जी
40	0689	अनिल पुरी
41	0692	सै. हमिद हुसैन
42	0779	राम नारायण प्रसाद
43	1270	बी. के. वर्मा
44	1335	रमेश चन्द्र
45	1336	मनोज कुमार गुप्ता
46	1815	सुनील मेहता
47	1853	अबुजर बेग
48	1883	गिरीश कुमार वर्मा
49	1916	रमेश चन्द्र

बी. एस. वैकटनाथन
उप महालेखाकार/प्रशा.

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय,
पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 30 सितम्बर 2009

सं. डब्ल्यू एम-1/क्यू-55(जी)/खण्ड-II/1586-1589--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I को इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतन बैंड-3 रुपये 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में 01.10.2009 या प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से जो बाद में लागू हो वर्तमान डिवीज़न में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

क्रमांक नाम

1. श्री गौतम कुमार चौधुरी
2. श्री फाल्गुनी चटर्जी

उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ. आर. 22 (i) (क) (1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह/- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

सं. डब्ल्यू एम-1/क्यू-73(जी)/खण्ड-IV/1590-1593--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतन बैंड-2 रुपये 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रुपये 4,800/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में 01.10.2009 को प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से जो बाद में लागू हो वर्तमान डिवीज़न में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

क्रमांक नाम

1. श्री कनाई लाल मंडल
2. श्री विश्वनाथ दास-II

उपरोक्त अधिकारियों को प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ. आर. 22 (i) (क) (1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

ह/- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 5 अक्टूबर 2009

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खण्ड-II--निम्नलिखित लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से वेतन बैंड-3 रुपये 15,600--39,100/- ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए गए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	एम. जी. राजशेखरन कुरुप	01.01.2009
2.	जखरियास अगस्टिन	01.01.2009
3.	के. गोपालकृष्णन नायर	01.01.2009
4.	पी. महेश्वरी अम्मा	01.01.2009
5.	टी. पी. मोहनदास	01.01.2009
6.	सी. एम. जोसफ	01.01.2009
7.	एम. एस. शशिधरन नायर	01.01.2009
8.	एम. ए. गीवर्गोस	01.01.2009
9.	ग्रेसी जोसफ	01.01.2009
10.	आर. राज राज वर्मा	01.01.2009
11.	बी. एस. वसंतकुमारी	01.01.2009
12.	के. के. उदयन	01.01.2009
13.	के. सुरेंद्रन (सं. 2)	01.01.2009
14.	टी. अमला	01.01.2009
15.	के. ए. देवस्सी	01.01.2009
16.	पी. के. रवींद्रन (सं. 2)	01.01.2009

ह/- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

सं. ले.प./प्रशासन-III/9-1/खण्ड-IV--निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से वेतन बैंड-2 रुपये 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में लेखापरीक्षा अधिकारियों के पद पर पदोन्नत किए गए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	के. एस. नंदकुमार	01.09.2008
2.	टी. पी. उणिक्कणन	01.09.2008
3.	मोहम्मद कुरनियन	26.09.2008
4.	वी. ए. अब्दुल शुक्कूर	03.11.2008

1	2	3
	श्री/श्रीमती	
5.	ई. जॉण	03.11.2008
6.	के. यू. जोसफ	01.01.2009
7.	सी. के. राजन	01.01.2009
8.	मात्यु पी. चेरियान	01.01.2009
9.	के. सुब्रह्मण्यन	01.01.2009
10.	ए. जोर्ज (सं.2)	02.02.2009
11.	आई. मोहनदास	02.02.2009
12.	के. बालचंद्र वारियर	02.02.2009
13.	ई. अलाउद्दीन	02.02.2009
14.	सी. एल. जोण	02.02.2009
15.	सी. डी. ईनाशु	02.02.2009
16.	वी. बालकृष्णन (सं.2)	02.02.2009
17.	टी. के. सावित्री	02.03.2009
18.	बी. मुरलीधरन नायर	02.03.2009
19.	एम. शिवन पिल्लै	02.03.2009
20.	जोण वर्गीस	04.03.2009
21.	ई. के. कृष्णदास	04.03.2009
22.	एम. एम. औसैफ	01.05.2009
23.	पी. आर. विजयकुमार	01.05.2009
24.	वी. एस. चंद्रमोहन	01.06.2009
25.	ए. लता	01.06.2009
26.	वी. पी. सोमसुंदरन	01.06.2009
27.	एस. एस. विजयकुमार	01.06.2009
28.	सी. एन. राधाकृष्णन नायर	01.06.2009

ह./- अपठनीय

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

सं. ए-19012/465/2008-स्था.ए.पी.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री जी. पी. तिवारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूगर्भ) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 05.10.2009 (पूर्वाह्न) से सहायक खनन भूविज्ञानी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

नागपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

सं. ए-19011/371/2009-स्था.ए.पी.पी.--श्री एस. एस. चाहांदे, उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, बंगलौर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2009 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. ए-19011/504/2009-स्था.ए.पी.पी.--श्री एन. राजू, उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, हैदराबाद वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.08.2009 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

बी. सूद
सहायक प्रशासन अधिकारी

उपभोक्त मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्त मामले विभाग)

कोलकाता-700091, दिनांक 5 दिसम्बर 2009

सं. ए-12026/1/05-मुख्यालय--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय परीक्षणशाला के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायकों (रसायन) को राष्ट्रीय परीक्षणशाला में, नियमित आधार पर, वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) के पद पर वेतन बैंड-2, रुपये 9,300--34,800/- ग्रेड पे रुपये 4,800/- सहित उनके प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक से पदोन्नत पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र.	नाम तथा पदनाम	वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री देवाशीस सरकार, एस. ए. (रसायन)	07.07.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री गुलाब राव माकोडे, एस. ए. (रसायन)	07.07.2009 (पूर्वाह्न)
3.	श्री विनोद कुमार, एस. ए. (रसायन)	19.08.2009 (पूर्वाह्न)

प्र. हेंस
उप निदेशक (प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 9 अक्टूबर 2009

सं. आरआरकेट/2007-प्रशा./आर-805(ए)/946--राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर,

में दिनांक 21.08.2009 के पूर्वाह्न से उनके नामों के सामने लिखे ग्रेडों, पे बैंडों में नियुक्त किया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड (पे बैंड + ग्रेड पे)	पदोन्नत ग्रेड (पे बैंड + ग्रेड पे)
1.	डॉ. के. एस. बिन्द्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/जी (पीबी-4, रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,900/-)	वैज्ञानिक अधिकारी/एच (पीबी-4, रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/-)
2.	श्री एस. वी. नाखे	-वही-	-वही-
3.	डॉ. अनिल रावत	-वही-	-वही-
4.	श्री पी. श्रीवास्तव	-वही-	-वही-

आर. पी. आचार्य
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 2 जुलाई 2009

सं. वीईसीसी/नियुक्ति/प्रशासन/09--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक डॉ. योगेश श्याम सावंत को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता में वेतन बैंड रु. 15,600-39,100/- रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर 13 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक अस्थायी रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं।

देवजीत गुप्ता
सहायक कार्मिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-म/2009/1012--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के सहायक लेखाकार, श्री बी. उमामहेश्वर राव को दिनांक 26 अगस्त 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक भारी पानी संयंत्र (मणुगुरू) में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड + रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में सहायक अधिकारी लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/1(16)-क/2009/1014--भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी, भापा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई के सहायक लेखाकार, श्री राजेश टेपनो को दिनांक 21 अगस्त, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक भारी पानी संयंत्र (कोट) में रु. 9,300--34,800/- के ग्रेड वेतन में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. पी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 2009

सं. आईजीसी/पीएफ/6955/2009-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में श्री राधाकृष्ण एस. यू. को अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर प्रारम्भिक वेतन रु. 21,000/- पर वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड पर दिनांक 27.05.2009 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

बी. दयालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500629, दिनांक 25 सितम्बर 2009

सं. पखनि-21/3/93-भर्ती/798--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री के. टी. मंजरेकर, आशुलिपिक श्रेणी-II (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को तारीख 27.08.2009 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक इसी निदेशालय में निजी सचिव (सचिवालयेतर) (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-), के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी. के. रामचन्द्रन
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय (केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

एन.एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. 8-20/2006 ई.जी.स्था./1373--विभागीय प्रोन्नति समिति (समूह-ख, राजपत्रित) की सिफारिश पर निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एम) को पै.वै. पी.बी.-2, रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे. रुपये 4,800/- प्रति माह एवं सामान्य भत्तों के वेतनमान में सहायक अभियंता समूह-ख, (राजपत्रित) के पद पर अस्थाई रूप से उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	कार्य स्थान	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री सुरेश कुमार बोहरिया	मुख्यालय, फरीदाबाद	6.08.2009
2.	श्री के. शिवा प्रसाद	प्रभाग-13, रायपुर	6.08.2009

वे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस. के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्वान रिलिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

सं. आर.ओ.सी./29953/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वान रिलिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स विशाल आर्गेनाईज़र्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

सं. आर.ओ.सी./16228/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विशाल आर्गेनाईज़र्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सरफेस प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 13 अक्टूबर 2009

सं. आर.ओ.सी./17660/एस.टी.ए./560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरफेस प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी पंजीयक कार्यालय, केरल एवं लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. एसएम 560(3)एसएम/आरओसी/एरनाकुलम/16506/2009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	15488	मैसर्स आर. सी. एम. हैल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड
2.	15459	मैसर्स कोर्टी स्वरूपम मर्केन्टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15650	मैसर्स अश्वामेघ क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15565	मैसर्स गौरीकमलम कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	15543	मैसर्स तीरथम कुरीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	15631	मैसर्स कम्पिटेन्ट सॉफ्टवेक प्राईवेट लिमिटेड
7.	19648	मैसर्स तिरुवनन्तापुरम सीपोर्ट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड

वी. ई. जोसकुट्टी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जयराज पाइप्स लिमिटेड के विषय में
कोच्चि-682021, दिनांक 09 अक्टूबर 2009

सं. 560(3)एमसीए/आरओसी/एरनाकुलम/560/2009/00004-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जयराज पाइप्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बेंगलूर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	30680	मैसर्स इंडो कोबल एंटरटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	17158	मैसर्स छाया कंसलटेंसी सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
3.	22844	मैसर्स सागर श्री गजानना फाईनान्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	37646	मैसर्स शिवा इन्फोटेक सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
5.	39183	मैसर्स आकाश इंडो सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड
6.	36715	मैसर्स एविएशन एयरक्राफ्ट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
7.	44333	मैसर्स सॉलैक्स सेमिकंडक्टर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
8.	25928	मैसर्स बेस्ट स्टॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	34344	मैसर्स मीडिया इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	37179	मैसर्स सॉंग ह्यूआन (इंडिया) प्रेसिशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
11.	37416	मैसर्स टेक्नोलॉजी राईट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	37533	मैसर्स वैदिक सिटी प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी के.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बेंगलूर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. कं. सं./क.र.ब./त.स./टीए-एमएम/560(3)/2009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	33171	मैसर्स अरुणोदय मैनेजमेन्ट एंड फाईनेन्शियल कंसलटेंसी प्राईवेट लिमिटेड
2.	25363	मैसर्स बिटसाफ्ट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	37415	मैसर्स ट्रम्स इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	32969	मैसर्स विगासु कंसलटिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
5.	30818	मैसर्स नचिकेत एनर्जी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	23837	मैसर्स सॉफ्ट गुरु सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
7.	38546	मैसर्स लिण्डोथ एंड विश्वनाथन एडवाइज़री सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
8.	33370	मैसर्स अनुग्रह सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी के.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बेंगलूर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं.--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	33594	मैसर्स फिट फारेवर फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	31108	मैसर्स जगन्नाथ नेटवर्क एंड लाजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	43023	मैसर्स बी. ए. सिस्टम्स (इन्टरनेशनल) सेल्स एंड मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	39184	मैसर्स आर्या फिन्सर कंपनी लिमिटेड
5.	46414	मैसर्स टेलिमेट 1 कम्प्यूटिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड
6.	33083	मैसर्स रियलिस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	26578	मैसर्स एच.एम. डिगि ऑडियो प्राईवेट लिमिटेड
8.	40160	मैसर्स थुंकिट सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	41341	मैसर्स जिरोक टेक्नोलॉजिस प्राईवेट लिमिटेड
10.	23586	मैसर्स इम्पल्ससॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	42710	मैसर्स एस. पी. हाइडेल पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
12.	47512	मैसर्स ओल्ड म्युचुअल कार्पोरेट सर्विसिस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
13.	30088	मैसर्स रमनश्री रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	48364	मैसर्स आईगेट प्राईवेट लिमिटेड
15.	13342	मैसर्स कर्नाटक कल्कसिलिक्रिट लिमिटेड
16.	8239	मैसर्स सोगेरखान प्लांटेशंस प्राईवेट लिमिटेड
17.	27462	मैसर्स इलाइंड सिस्टम्स लिमिटेड
18.	33960	मैसर्स बेलेव्यू कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	49222	मैसर्स एस.एस. किड्स प्रिस्कूल्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	4656	मैसर्स घट्याडागल्ली एंटरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
21.	8965	मैसर्स होमली फिलिंग्स कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड
22.	33480	मैसर्स चेलवारा इमेजिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
23.	43532	मैसर्स प्लॉक टेक्नोलॉजिस (बैंगलोर) प्राईवेट लिमिटेड
24.	16117	मैसर्स पल्सर कंट्रोल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	10446	मैसर्स ट्रापिकल ग्रिनजेन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	5494	मैसर्स नवकार केबल्स एंड कंडक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	22862	मैसर्स केसिरोबॉयकॉन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी के.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बेंगलूर, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित
हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	44070	मैसर्स अतिश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	44082	मैसर्स ओजस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	24885	मैसर्स इनाविस सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
4.	18728	मैसर्स ओरम सॉफ्टवेयर (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
5.	25199	मैसर्स दक्षिण कन्नडा फोटोग्राफर्स कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
6.	25878	मैसर्स मंजेश क्रिएशंस प्राईवेट लिमिटेड
7.	18318	मैसर्स साइबर मार्ट (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
8.	18319	मैसर्स साइबर सोल्यूशन (इंडिया) लिमिटेड
9.	11813	मैसर्स कल्पतरु रिसर्च फाउंडेशन

1	2	3
10.	30770	मैसर्स बी. स्कूल मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
11.	43367	मैसर्स सावैरिक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	32240	मैसर्स एलियन कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	47064	मैसर्स जी.एस. फेरस प्राईवेट लिमिटेड
14.	42565	मैसर्स एनेक्सटेक सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	28024	मैसर्स इनेट साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
16.	28072	मैसर्स नोवा मीटर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	32248	मैसर्स इकोकोक एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड
18.	13722	मैसर्स एबंसल कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
19.	38170	मैसर्स एक्सेल फैशनस प्राईवेट लिमिटेड
20.	33892	मैसर्स बृंदावन कॉन्टैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	32598	मैसर्स सेल्युलर रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	32597	मैसर्स चैतन्य रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	26340	मैसर्स दिव्यश्री मैट्रोसिटी प्रोपर्टी मैनेजर प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी के.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 6th October 2009

No. F. 20/2009-SCA(I)—Smt. Prem Lata Sharma, Deputy Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of September 30, 2009 on her attaining the age of superannuation.

V. K. YADAV
Additional Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-69, the 9th September 2009

No. A-35018/2/2009-Admn. II—In continuation of this Office Notification of even number dated 19.05.2009, the period of ad-hoc deputation of Shri Rajesh Joshi, Steno Grade 'C', UPSC to the post of Staff Officer to Chairman, UPSC in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- (Grade-"B", Gazetted) is extended for a further period of 3 months wef 15.08.2009 to 14.11.2009 (giving a technical break on 14.08.2009) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

New Delhi, the 9th September 2009

No. A-19014/08/2009-Admn. I—Consequent upon her inclusion in the Select List of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) for the year 2007 and allocation to the cadre of UPSC vide Department of Personnel & Training O.M. No. 4/1/2009-CS.I (D) dated 27.08.2009, the President is pleased to appoint Ms. Ratna Lalitha, a Grade-I officer of CSS (Under Secretary) borne on the strength of Department of Commerce, Directorate General of Foreign Trade, to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) in the office of Union Public Service Commission in PB-3 (Rs. 15,600—39,100) + Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis.

2. The approved service in respect of Ms. Ratna Lalitha, on her inclusion in the Select List counts from 1st July, 2007 in terms of Rule 2(c) (iii) of the CSS rules, 1962. Accordingly, the officer would be entitled to fixation of pay in terms of provisions contained in FR 22 (I)(a)(i) i.e. w.e.f. 01.07.2007 on notional basis. The actual benefits, however, would be available only from the date the officer is so appointed and assumed the charge of Deputy Secretary in terms of DOP&Trg. O.M. No. 4/1/2009-CS.I (D) dated 27.08.2009

3. Ms. Ratna Lalitha has assumed the charge of the post of Deputy Secretary, UPSC w.e.f. 02.09.2009 (F.N.).

A. K. AHLUWALIA
Administrative Officer

The 18th September 2009

No. A-19016/07/2009-Admn. I—Consequent upon his nomination to CSSS cadre of UPSC on his regular promotion to the post of Senior Principal Private Secretary Grade (Sr. PPS) of CSSS of Select List 2008 vide Department of Personnel & Training's Orders No. 5/8/2009-CS. II dated 22nd July 2009, 9th September, 2009 and 11th September, 2009, the President is pleased to appoint Shri M. Sasidharan, a regular Principal Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Defence as Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 7,600/-, in the office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 07th September, 2009 until further orders.

A. K. AHLUWALIA
Administrative Officer

The 1st October 2009

No. A-19011/03/2009-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar Gupta, IAS (JK : 86) to the post of Additional Secretary, Union Public Service Commission (Joint Secretary Level) in the Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000) + Grade Pay Rs. 10,000/- w.e.f. the forenoon of 25th September, 2009 for the balance period of his Central Deputation tenure i.e. upto 15.02.2011.

A. K. AHLUWALIA
Administrative Officer

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 19th October 2009

No. DP/Pers. I/2008/0079/3/51/2002—Services of Shri Rajni Kant Mishra, IPS (UP : 1984), JD, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of Government of Uttar Pradesh with effect from the afternoon of 07.10.2009 or completion of his normal tennure of 7 years at Centre.

S. J. M. GILLANI
Dy. Director (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 7th October 2009

No. IM-PRS-563/59489—In terms of Department of Personnel & Training O.M. No. 6/11/2008-EO (MM-I), dated 27th August, 2009, Shri K. Subramaniam, IA&AS (95), Dy. Secretary is hereby appointed as Director in the Commission with effect from the forenoon of 29.08.2009 as a measure personal to him for the balance period of his tenure which would now be upto 14.01.2014 or till further orders, whichever is earlier.

M. A. KHAN
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF,

New Delhi-03, the 13th October 2009

No. O.II.3615/2009. Pers.—The Govt. of India have appointed Shri Ashutosh Shukla, IPS (TN : 86) as Inspector General of Police in CRPF in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- on deputation basis for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General of Police, CRPF in the forenoon of 26.08.2009.

T. CHANDERASEKHARAN
DIGP (Pers.)

No. O.II.3619/2009. Pers.—The Govt. of India have appointed Shri N. R. K. Reddy, IPS (RJ : 86) as Inspector General of Police in CRPF in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- on deputation basis for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General of Police, CRPF in the forenoon of 22.09.2009.

T. CHANDERASEKHARAN
DIGP (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 9th October 2009

No. E-38015 (4) GPC/2009/Pers. I/301—The President is pleased to accept the resignation of Shri G. P. Choudhary, Deputy Commandant, CISF Hqrs, New Delhi with effect from 09.10.2009 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 7th October 2009

No. 5174-GE-I/13-2006(I)—The following IA&AS officers have retired on superannuation from Government Service from the date shown against their names :—

S/Shri

1. Sword Vashum Retired on superannuation wef 30.09.2009 (AN)
2. K. Manjit Singh Retired on superannuation wef 30.09.2009 (AN)
3. T. L. Anjan Retired on superannuation wef 30.09.2009 (AN)
4. D. C. Sharma Retired on superannuation wef 30.09.2009 (AN)
5. L. K. Rajput Retired on superannuation wef 30.09.2009 (AN)

R. NARESH
Asstt. Compt. & Auditor General (P)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
(CENTRAL EXPENDITURE)

New Delhi-110003, 6th October 2009

No. 159 Admn. I/O.O.—Director General of Audit (Central Expenditure) New Delhi hereby appoints Sh. Jitender Kumar Pahwa, Assistant Audit Officer of this office to officiate as Audit Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- carrying Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 01.10.2009 (FN) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT-I) U.P.

Allahabad the 15th October 2009

No. Admn.-II/Gr-I/7-18/Notification-AAOS/ Vol. III/ 1218—Ministry of finance had vide Notification Under GSR-622 (E) dated 29.08.2008 upgraded the pre-revised Pay Scales of Section Officer and Assistant Accounts Officer and placed them in a common Pay Band (PB-2, Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- merging the posts of Section Officer and Assistant Accounts Officer. As per letter No. 697-6-PC/GE-II/22-2009 dated 27.5.2009 of Office of the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi, the merged cadre of Section Officer and Assistant Accounts Officer is now re-designated as Assistant Accounts Officer and is classified as Group 'B' Gazetted w.e.f. 27.05.2009. Accordingly following Section Officers are re-designated as Assistant Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) w.e.f. 27.05.2009.

Sl. No.	Personal No.	Name
1	2	3
		S/Shri
1.	1825	Harish Kumar Mishra
2.	1801	Rashid Ali Khan
3.	1823	Pradeep Kumar Gupta
4.	1838	Arshad Idris
5.	1850	Pramod Kumar Sharma
6.	1858	Triyugi Narayan Dhar Dwivedi
7.	1872	*Rajesh Kumar Sharma
8.	1908	Amarjeet Prasad
9.	1918	Kishor Kumar Gupta
10.	1919	Shree Prakash Singh
11.	1978	Ram Lakhan Singh
12.	0254	Ram Adhar
13.	0497	Lal Jeet Jai

1	2	3
	S/Shri	
14.	1382	Prem Chandra
15.	1440	Arjun Prasad
16.	1985	Pradeep Kumar Srivastava
17.	2028	Rajnish Kumar Srivastava
18.	1828	Veer Singh
19.	0619	Gabrial kujur
20.	2032	Sanjay Kumar Jaiswal
21.	2069	Vikas Jaiswal
22.	2141	Keshav Ram
23.	2188	Aryendra Prasad Gupta
24.	2202	Gauhar Masroof Siddiqui
25.	2219	Ram Bihari Mishra
26.	2183	Arvind Shukla
27.	2063	Ganesh Chandra
28.	2227	Sheo Kumar Verma
29.	2229	Vijay Kumar
30.	2294	Manoj Kumar Madhup
31.	2316	Nand Lal Saroj
32.	0777	Ram Pratap
33.	0460	Bal Kumar
34.	0632	Purshottam Lal
35.	0405	Shailendra Tripathi
36.	0451	Raghvendra Prasad Dubey
37.	0535	Rajendra Kumar
38.	0536	Shiv Kumar Vaish
39.	0625	Chandan Kumar Chaterji
40.	0689	Anil Puri
41.	0692	Syed Hamid Hussain
42.	0779	Ram Narain Prasad
43.	1270	B. K. Verma
44.	1335	Ramesh Chandra
45.	1336	Manoj Kumar Gupta
46.	1815	Sunil Mehta
47.	1853	Abuzar Beg
48.	1883	Girish Kumar Verma
49.	1916	Ramesh Chandra

V. S. VENKATANATHAN
Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 30th September 2009

No. WM-I/Q55(G)/Vol-II/1586-1589—Under the orders of the Pr. A. G. (A&E), W.B. the following Divisional Accounts Officer Grade-I are hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 15600—39100 and Grade Pay Rs. 5400/- in temporary and officiating capacity w.e.f. 01.10.2009 or the date of assumption of charges (whichever is later) as Sr. Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service

Sl.No. Name

1. Shri Gautam Kumar Choudhury
2. Shri Falguni Chatterjee

The above named officers may submit their options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D. A. O. for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs.)

No. WM-I/Q73(G)/Vol-IV/1590-1593—Under the orders of the Pr. A. G. (A&E), W.B. the following Divisional Accounts Officer Grade-II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 9300—34800/- and Grade Pay Rs. 4800/- in temporary and officiating capacity w.e.f. 1.10.2009 or the date of assumption of charges (whichever is later) as Divisional Accounts Officer Gr.-I in the present divisions/division noted against each till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service

Sl.No. Name

1. Shri Kanai Lal Mondal
2. Shri Biswanath Das-II

The above named officers may submit their options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D.A.O.I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A/cs.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 5th October 2009

No. Au./Admn.III/9-1/Vol.II—The following Audit Officers have been promoted as Senior Audit Officers in PB3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	M G Rajasekharan Kurup	01.01.2009
2.	Zacharias Augustine	01.01.2009
3.	K Gopalakrishnan Nair	01.01.2009
4.	P Maheswari Amma	01.01.2009
5.	T P Mohandas	01.01.2009
6.	C M Joseph	01.01.2009
7.	M S Sasidharan Nair	01.01.2009
8.	M A Geevarghese	01.01.2009
9.	Gracy Joseph	01.01.2009
10.	R Raja Raja Varma	01.01.2009
11.	B S Vasanthakumari	01.01.2009
12.	K K Udayan	01.01.2009
13.	K Surendran (No. 2)	01.01.2009
14.	T Amala	01.01.2009
15.	K A Devassy	01.01.2009
16.	P K Raveendran (No. 2)	01.01.2009

Sd/- ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

No. Au./Admn.III/9-1/Vol. II—The following Assistant Audit Officers have been promoted as Audit Officers in PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	K S Nandakumar	01.09.2008
2.	T P Unnikrishnan	01.09.2008
3.	Mohamed Kurunian	26.09.2008
4.	V A Abdul Shukoor	03.11.2008

1	2	3
5.	E John	03.11.2008
6.	K U Joseph	01.01.2009
7.	C K Rajan	01.01.2009
8.	Mathew P Cherian	01.01.2009
9.	K Subramonian	01.01.2009
10.	A George (No. 2)	02.02.2009
11.	I Mohandas	02.02.2009
12.	K Balachandra Warriar	02.02.2009
13.	E Alaudeen	02.02.2009
14.	C L John	02.02.2009
15.	C D Inasu	02.02.2009
16.	V Balakrishnan (No. 2)	02.02.2009
17.	T K Savithri	02.03.2009
18.	B Muralidharan Nair	02.03.2009
19.	M Sivan Pillai	02.03.2009
20.	John Varghese	04.03.2009
21.	E K Krishnadas	04.03.2009
22.	M M Ouseph	01.05.2009
23.	P R Vijayakumar	01.05.2009
24.	V S Chandramohan	01.06.2009
25.	A Latha	01.06.2009
26.	V P Somasundaran	01.06.2009
27.	S S Vijayakumar	01.06.2009
28.	C N Radhakrishnan Nair	01.06.2009

Sd/- ILLEGIBLE

Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 14th October 2009

No. A-19012/465/08-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri G. P. Tiwari, Senior Technical Assistant (Geo.) is promoted to the post of Assistant Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 5.10.2009 (F.N.).

S. DASGUPTA
Sr. Admn. Officer
for Controller General

Nagpur, the 9th October 2009

No. A-19011/371/2009-Estt. App.—Shri S. S. Chahande Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines Bangalore has relinquished charge on hte afternoon of 30.09.2009 on attaining the age of superannuation.

B. SOOD
Asstt. Admn. Officer

The 12th October 2009

No. A-19011/504/2009-Estt. App.—Shri N. Raju, Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Hyderabad, has relinquished charge on the afternoon of 31.08.2009 on attaining the age of superannuation.

B. SOOD
Asstt. Admn. Officer

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS

FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

Kolkata-91, the 5th October 2009

No. A-12026/1/05-HQ—The President is pleased to appoint the following Scientific Assistants (Chemical) to the post of Scientific Officer (Chem.) on promotion in National Test House on regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Appointment on promotion as Sc. Officer
1.	Sri Debasish Sarkar, S.A. (Chem.)	07.07.2009 (F/N)
2.	Sri Gulab Rao Makode, S.A. (Chem.)	07.07.2009 (F/N)
3.	Sri Vinod Kumar, S.A. (Chem.)	19.08.2009 (F/N)

P. HANS
Dy. Dir. (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 9th October 2009

No. RRCAT/2009-Admn/R-805 (A)/946—President is pleased to appoint the following Officers to the grades, pay band and from forenoon of the date 21.08.2009 as indicated against their names in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore.

Sl. No.	Name of Officer	Present Grade (Pay Band+ Grade Pay)	Promoted Grade (Pay Band+ Grade Pay)
1.	Dr. K. S. Bindra	Scientific Officer/G (PB-4, Rs. 37,400- 67,000 + Grade Pay Rs. 8,900	Scientific Officer/H (PB-4 Rs. 37,400- 67,000 + Grade Pay Rs. 10,000)
2.	Shri S. V. Nakhe	—do—	—do—
3.	Dr. Anil Rawat	—do—	—do—
4.	Shri P. Shrivastava	—do—	—do—

R. P. ACHARYA
Chief Administrative Officer

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 2nd July 2009

No. VECC/Appt./Admn./09—The President of India is pleased to appoint Dr. Yogesh Shyam Sawant as Scientific Officer/D in the Pay Band Rs. 15,600—39,100+Rs. 6,600/- (Grade Pay) in Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata with effect from the forenoon of March 13, 2008 in a temporary capacity, until further orders.

DEBJIT GUPTA
Asstt. Personnel Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 7th October 2009

No. HWB/R/1(16)-M/2009/1012—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Bh. Uma Maheswara Rao, Assistant Accountant, NFC, Hyderabad to officiate as Assistant Accounts Officer in Heavy Water Plant (Manuguru) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay Rs. 4,800/- from the forenoon of 26th August, 2009 until further orders.

K. V. PILLAI
Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(16)-K/2009/1014—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Rajesh Topno, Assistant Accountant, BARC, Mymbai to officiate as Assistant Accounts Officer in Heavy Water Plant (Kota) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800 with Grade Pay Rs. 4,800/- from the forenoon of 21st August, 2009 until further orders.

K. V. PILLAI
Administrative Officer-III

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 2009

No. IGC/PF/6955/2009-R—President is pleased to appoint Shri Radhakrishna Su. in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 21,000/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- (GP.) with effect from the forenoon of 27.05.2009 in a temporary capacity until further orders.

V. DAYALAN
Chief Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500629, the 25th September 2009

No. AMD-21/3/93-Rectt/798—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri K. T. Manjrekar, Stenographer Grade-II (Pay Band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200/-), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Hyderabad as Private Secretary (Non-Secretariat) (Pay Band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,200) in the same Directorate with effect from the forenoon of 27th August, 2009 until further orders.

C. K. RAMACHANDRAN
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CENTRAL GROUND WATER BOARD

NH-IV, Faridabad, the 12th October 2009

No. 8-20/2006-Engg.Estt. 6435—On the recommendation of the DPC (Group 'B' Gazetted), the following STA(M) have been promoted to the Post of Assistant Engineer (Group 'B' Gazetted) in the pay band PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with grade pay of Rs. 4,800/- per month plus usual allowances applicable thereon in the temporary capacity from the date shown as under :—

Sl. No.	Name of Officers	Place of posting	Date of Joining
1.	Sh. Suresh Kumar Bohria	CHQ, Faridabad	06.08.09
2.	Sh. K. Siva Prasad	Div.-XIII, Raipur	06.08.09

They will be on probation for a period of two years from the date of their joining which can be extended by the competent Authority at his discretion, if considered necessary.

S. K. SINHA
Dir. Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Swan Realities Private Limited

Ahmedabad-380013, the 13th October 2009

No. 68/13521—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swan Realities Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishal Organisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 13th October 2009

No. 70/13545—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishal Organisers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surface Processors Private Limited

Ahmedabad-380013, the 13th October 2009

No. 64/13548—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surface Processors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Havelli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kochi, the 29th September 2009

No. Notice.u/s 560(3)/SM/ROC-Ekm/16506/2009—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	15488	M/s. RCM Health Care Private Limited
2.	15459	M/s. Koratty Swaroopam Mercantiles Private Limited
3.	15650	M/s. Ashwamedh Creations Private Limited
4.	15565	M/s. Goureekamalam Kuries Private Limited
5.	15543	M/s. Theertham Kuries Private Limited
6.	15631	M/s. Competent Softech Private Limited
7.	19648	M/s. Thiruvananthapuram Seaport Services Limited

V. E. JOSEKUTTY
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jayaraj Pipes Limited

Ernakulam-682021, the 9th October 2009

No. u/s. 560(3) MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2009/00004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jayaraj Pipes Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S MAMMERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Bangalore, the 12th October 2009

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(5)/2009—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	30680	M/s. Info Cable Entertainers Private Limited
2.	17158	M/s. Chaya Consultancy Services Private Limited
3.	22844	M/s. Sagar Sri Gajanana Finance and Investments Private Limited

1	2	3
4.	37646	M/s. Siva Infotech Solutions Private Limited
5.	39183	M/s. Akash Info Solutions Private Limited
6.	36715	M/s. Aviation Aircargo Services Private Limited
7.	44333	M/s. Solex Semiconductor India Private Limited
8.	25928	M/s. Best Stocks Private Limited
9.	34344	M/s. Media Equations Private Limited
10.	37179	M/s. Song Chuan (India) Precision Company Private Limited
11.	37416	M/s. Teknowledge Rights Private Limited
12.	37533	M/s. Vedic City Promoters Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Bangalore, the 12th October 2009

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2009—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the above Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	33171	M/s. Arunodaya Management and Financial Consultancy Private Limited
2.	25363	M/s. Bitsoft Systems Private Limited
3.	37415	M/s. Trumps Innovations Private Limited
4.	32969	M/s. Vigasu Consulting Services Private Limited
5.	30818	M/s. Nachiketha Energy Systems Private Limited
6.	23837	M/s. Soft Guru Services Private Limited
7.	38546	M/s. Lindroth and Viswanathan Advisory Services Private Limited
8.	33370	M/s. Anugraha Softwares Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI
Asstt. Registrar of Companies

Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 12th October 2009

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(5)/2009—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
---------	---------	---------------------

1	2	3
1.	33594	M/s. Fit Forever Foods Private Limited
2.	31108	M/s. Jagannath Network and Logistics Private Limited
3.	43023	M/s. B A Systems (International) Sales & Manufacturing Private Limited
4.	39184	M/s. Arya Finser Company Limited
5.	46414	M/s. Telemate 1 Communications Private Limited
6.	33083	M/s. Realist Information Systems Private Limited
7.	26578	M/s. H M Digi Audio Private Limited
8.	40160	M/s. Thunkit Systems Private Limited
9.	41341	M/s. Zeroc Technologies Private Limited
10.	23586	M/s. Impulsoft Private Limited
11.	42710	M/s. SP Hydrel Power Private Limited
12.	47512	M/s. Old Mutual Corporate Services (India) Private Limited
13.	30088	M/s. Ramanashree Resorts Private Limited
14.	48364	M/s. iGate Private Limited
15.	13342	M/s. Karnataka Kalksilcrete Limited
16.	8239	M/s. Someshwarkhan Plantations Private Limited
17.	27462	M/s. Elind Systems Limited
18.	33960	M/s. Bellevue Consultants Private Limited
19.	49222	M/s. SS Kids Preschools Private Limited
20.	4656	M/s. Ghattadagalli Enterprises Private Limited
21.	8965	M/s. Homely Feeling Constructions Private Limited
22.	33480	M/s. Chelavara Imaging Services Private Limited
23.	43532	M/s. Flock Technologies (Bangalore) Private

Limited

1	2	3
24.	16117	M/s. Pulsar Controls Private Limited
25.	10446	M/s. Tropical Greengenes Private Limited
26.	5494	M/s. Navkar Cables and Conductors Private Limited
27.	22862	M/s. Keasirobicon Industrial Systems Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Bangalore, the 12th October 2009

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(5)/2009—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
---------	---------	---------------------

1	2	3
1.	44070	M/s. Atish Developers Private Limited
2.	44082	M/s. Ojas Developers Private Limited
3.	24885	M/s. Inavihs Software Private Limited
4.	18728	M/s. Aurum Software (India) Private Limited
5.	25199	M/s. Dakshina Kannada Photographers Color Lab Private Limited
6.	25878	M/s. Manjesh Creations Private Limited
7.	18318	M/s. Cyber Mart (India) Limited
8.	18319	M/s. Cyber Solution (India) Limited
9.	11813	M/s. Kalpataru Research Foundation
10.	30770	M/s. B. School Management Institute Private Limited
11.	43367	M/s. Maverick India Private Limited
12.	32240	M/s. Alien Consultants Private Limited
13.	47064	M/s. G S Ferrous Private Limited
14.	42565	M/s. Anextek Systems Private Limited
15.	28024	M/s. Inet Software Private Limited
16.	28072	M/s. Nova Meters Private Limited

17.	32248	M/s. Ecocoke and Power Private Limited
1	2	3
18.	13722	M/s. Abansal Computech Private Limited
19.	38170	M/s. X-Cel Fashions Private Limited
20.	33892	M/s. Brindavan Contractors Private Limited

21.	32598	M/s. Cellular Realtors Private Limited
1	2	3
22.	32597	M/s. Chaithanya Realtors Private Limited
23.	26340	M/s. Divyasree Metrocity Property Managers Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka